

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 60]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 जनवरी 2010—पौष 16, शक 1931

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, (मध्यप्रदेश)-462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. एफ. 65-08-09-तीन-124.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, सिवनी, जिला-सिवनी.	अध्यक्ष	-	-	श्री राजेश त्रिवेदी
		पार्षद	1	एक	श्री पूनम महेश (मंदरा) डेहरिया
		पार्षद	2	दो	श्रीमती विमला यादव
		पार्षद	3	तीन	सीमा संजय चौरसिया
		पार्षद	4	चार	श्रीमती विमल (सोनू) पाराशर
		पार्षद	5	पांच	श्री राजेश साहू
		पार्षद	6	छः	श्री संजय भलावी
		पार्षद	7	सात	श्रीमती लीला सरूपलाल
		पार्षद	8	आठ	तृप्ती विनोद नामदेव
		पार्षद	9	नौ	श्री राजिक (अकील)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	पार्षद	10	दस	श्री शहजादे उर्फ बब्लू दूधवाले	
	पार्षद	11	ग्यारह	संध्या मनुचंद सोनी	
	पार्षद	12	बारह	मो. शफीक (पार्षद)	
	पार्षद	13	तेरह	मो. इब्राहीम	
	पार्षद	14	चौदह	श्रीमती नारायणी चीकू सक्सेना	
	पार्षद	15	पन्द्रह	मेहमूद भाई	
	पार्षद	16	सोलह	सरोज सुरेश भांगरे	
	पार्षद	17	सत्रह	श्री संजय कुमार उर्फ संजू	
	पार्षद	18	अठारह	श्रीमति वंदना गिरी	
	पार्षद	19	उन्नीस	श्रीमति माया मरकाम	
	पार्षद	20	बीस	श्रीमति श्यामा मंगल कश्यप	
	पार्षद	21	इक्कीस	राजेश उर्फ राजा पराते	
	पार्षद	22	बाईस	श्याम शोले	
	पार्षद	23	तेईस	नब्लू भाई	
	पार्षद	24	चौबीस	जितेन्द्र उर्फ जित्तू भैया	

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-125.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष/पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, बरघाट, जिला-सिवनी.	अध्यक्ष	-	-	सन्ध्या अनिलसिंह ठाकुर
		पार्षद	1	एक	सुधा कंगाली
		पार्षद	2	दो	प्रदीप सोनकेसरिया
		पार्षद	3	तीन	रश्मि पंकज वासनिक
		पार्षद	4	चार	नीतू जायसवाल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	5	पांच	नरेशकुमार अहिरवार
		पार्षद	6	छः	गीता चौधरी
		पार्षद	7	सात	कंचनसिंह ठाकुर
		पार्षद	8	आठ	अनिल कुमार पाठक
		पार्षद	9	नौ	शिवराम चौधरी
		पार्षद	10	दस	संगीता रंजीत वासनिक
		पार्षद	11	ग्यारह	कुंवरसिंह राजपूत
		पार्षद	12	बारह	कविता सुरेन्द्र जायसवाल
		पार्षद	13	तेरह	उर्मिला लेखराम बिसेन
		पार्षद	14	चौदह	ऋषभ जायसवाल
		पार्षद	15	पन्दह	हरिशंकर

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-126.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, कटंगी, जिला-बालाघाट.	अध्यक्ष	-	-	मेष देशमुख
		पार्षद	1	एक	श्रीमति गायत्री योगेन्द्र योगराज ठाकरे
		पार्षद	2	दो	गायत्री योगेन्द्र (छोटू) राहंगडाले
		पार्षद	3	तीन	श्रीमति पारूल डॉ. प्रकाश देशमुख
		पार्षद	4	चार	मुकेश इंगोले
		पार्षद	5	पांच	अनिल लारोकर
		पार्षद	6	छः	देवकरण जियालाल पटले
		पार्षद	7	सात	श्रीमति लता रमेश देशमुख

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	8	आठ	श्रीमति दुर्गा चन्द्रकिशोर जुम्हारे
		पार्षद	9	नौ	अब्दुल रहमान
		पार्षद	10	दस	शेषु भरतलाल कुमारे
		पार्षद	11	ग्यारह	संदीप सोनपुरे
		पार्षद	12	बारह	संजय राधाकिसन चौकसे
		पार्षद	13	तेरह	अंजू लिखनलाल नेवारे
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती मधु संजु चौरसिया
		पार्षद	15	पन्द्रह	सुमन / काजु शर्मा

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. एफ. 65-08-09-तीन-127.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल अंकों में	केवल पार्षद शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, बालाघाट जिला-बालाघाट.	अध्यक्ष	-	-	रमेश रंगलानी
		पार्षद	1	एक	अनिल सोनी
		पार्षद	2	दो	किरण बसंत पंवार
		पार्षद	3	तीन	पप्पु संजय भोज
		पार्षद	4	चार	पुष्पा संतोष कुमार
		पार्षद	5	पांच	मुनेश्वरी धर्मेन्द्र माहुले
		पार्षद	6	छः	मेहरूनिशा वहीद अल्ला रखाँ
		पार्षद	7	सात	छबीराम नागेश्वर
		पार्षद	8	आठ	पन्नालाल पिता रामकिशन
		पार्षद	9	नौ	मो. शफकत मो. शिफात
		पार्षद	10	दस	श्री साबीर भाई
		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती गीता हीरालाल बिसेन
		पार्षद	12	बारह	श्रीमती विमला चन्द्रकान्त डहाके
		पार्षद	13	तेरह	राखी रवि बनाफर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती आशा कमलसिंग कुर्वेती
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमती रमा कालिका प्रसाद चिले
		पार्षद	16	सोलह	श्रीमती सरोज बर्वे
		पार्षद	17	सत्रह	श्री अमित बैस
		पार्षद	18	अठारह	मन्जू राजेन्द्र चौधरी
		पार्षद	19	उन्नीस	श्रीमती यशोदा अनिल मंगलानी
		पार्षद	20	बीस	जय यादव दादा भाई
		पार्षद	21	इक्कीस	सत्या चित्रवर्ण शुक्ला
		पार्षद	22	बाईस	आशा ओमकार बिसेन
		पार्षद	23	तेईस	संतोष मरकाम
		पार्षद	24	चौबीस	रूप रेखा दिलीप बाघमारे
		पार्षद	25	पच्चीस	अशोकसिंह बैस (खोका)
		पार्षद	26	छब्बीस	श्रीमती मंजु देवेन्द्र (देउ) बिसेन
		पार्षद	27	सत्ताईस	श्री भाई सुनील खोटेले
		पार्षद	28	अट्ठाईस	विणा दिलिप कनौजिया
		पार्षद	29	उन्तीस	श्री अजय (मानू) यादव
		पार्षद	30	तीस	राजेश लिल्हारे
		पार्षद	31	इकतीस	कमलेश पांचे
		पार्षद	32	बत्तीस	श्रीमती ममता अरूण राहंगडाले
		पार्षद	33	तैंतीस	बिहारी उर्फ पप्पु चौधरी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-128.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष/ पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र. नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 नगरपालिका परिषद् वारासिवनी, जिला बालाघाट	अध्यक्ष पार्षद	- 1	- एक	श्रीमति रिमता प्रदीप जायसवाल श्रीमती प्रिती संतोष शिव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	2	दो	श्रीमती नीता रामसिंह राहांगडाले (धाकड़)
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती दुर्गेश अनिल सिंह चौव्हाण
		पार्षद	4	चार	श्रीमती रामकली नन्हेलाल टेकाम
		पार्षद	5	पांच	श्रीमती मनीषा सुनील पिपरेवार
		पार्षद	6	छः	श्रीमति दीपलता हेमन्त देशमुख
		पार्षद	7	सात	श्रीमती सीमा गणेश देव्हारे
		पार्षद	8	आठ	धानू लांजेवार
		पार्षद	9	नौ	हितेश गजभिये
		पार्षद	10	दस	श्रीमति ललिता चन्द्रकिशोर बुरडे
		पार्षद	11	ग्यारह	उमेश कुमार रामदास नन्दनवार
		पार्षद	12	बारह	नंदकिशोर भरतलाल मरठे
		पार्षद	13	तेरह	कमल लक्ष्मण मात्रे
		पार्षद	14	चौदह	अतेन्द्र जैन
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमति शीला हेमराज हरिनखेड़े

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-129—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, आमला जिला-बैतूल.	अध्यक्ष	-	-	मनोज मालवे
		पार्षद	1	एक	चम्पा पंचम डोमने
		पार्षद	2	दो	संगीता नटवरलाल भावसार
		पार्षद	3	तीन	अनिल रंगराव
		पार्षद	4	चार	प्रकाश कोसे
		पार्षद	5	पांच	शाबीर शाह
		पार्षद	6	छः	सुखदेव नारे
		पार्षद	7	सात	गणेश (बाबा) देशमुख

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	8	आठ	बेबी सुभाष देशमुख
		पार्षद	9	नौ	विजय कुमार अतुलकर
		पार्षद	10	दस	काशीबाई
		पार्षद	11	ग्यारह	नन्दा रामदास
		पार्षद	12	बारह	ओमवती विश्वकर्मा
		पार्षद	13	तेरह	ममता मुनिराज
		पार्षद	14	चौदह	रिशी खातरकर
		पार्षद	15	पन्द्रह	ताराबाई धनोदे
		पार्षद	16	सोलह	प्रदीप पोटफोड़े
		पार्षद	17	सत्रह	प्रभा चिरोंजी पटेल
		पार्षद	18	अठारह	रेखा कनौजिया

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-130.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, बैतूल जिला-बैतूल.	अध्यक्ष	-	-	डॉ. राजेन्द्र देशमुख
		पार्षद	1	एक	रमकी बाई जयसिंग उइके
		पार्षद	2	दो	बसंत ज्ञानसिंग
		पार्षद	3	तीन	मनोज मालवीय
		पार्षद	4	चार	सुनीता बबलू राठौर
		पार्षद	5	पांच	पूनम रामपाल
		पार्षद	6	छः	राजकुमार (रजू) गोपालदास
		पार्षद	7	सात	फहीम कुरैशी
		पार्षद	8	आठ	श्री कदीर खान
		पार्षद	9	नौ	श्री शैलेश्वर राव (संजू) गायकवाड़

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	10	दस	श्री. किशोर जैन
		पार्षद	11	ग्यारह	हेमलता कुंभारे
		पार्षद	12	बारह	श्री महेश पाल
		पार्षद	13	तेरह	श्री महेश भैय्यालाल
		पार्षद	14	चौदह	रजनी राजेश कुमार वर्मा
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमती ममता यादव मूलचन्द यादव
		पार्षद	16	सोलह	संध्या मासोदकर
		पार्षद	17	सत्रह	श्री सतीश महाते (यादव)
		पार्षद	18	अठारह	श्री उमाशंकर दीवान
		पार्षद	19	उन्नीस	जनमा पंढरी पंडागरे
		पार्षद	20	बीस	शरीफा बी उर्फ शकुनलता
		पार्षद	21	इक्कीस	श्रीमती निर्मला सोनी
		पार्षद	22	बाईस	श्री अब्दुल सलाम अब्दुल अजीज
		पार्षद	23	तेईस	कु. कमला नागले
		पार्षद	24	चौबीस	श्रीमती सपना श्रीकान्त साहू
		पार्षद	25	पच्चीस	अशोक नागले
		पार्षद	26	छब्बीस	सुरेश सावनेर
		पार्षद	27	सत्ताईस	श्री अरुण कुमार चौबे
		पार्षद	28	अट्ठाईस	जगदीश मंगरे
		पार्षद	29	उन्तीस	साक्षी दिलीप सतीजा
		पार्षद	30	तीस	पद्मा भगतराम साहू
		पार्षद	31	इकतीस	अनिता शिवनारायण राठौर
		पार्षद	32	बत्तीस	गुन्ता घूड़न इड़पाची
		पार्षद	33	तैंतीस	ममता देवेन्द्र मालवी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-131.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, बैतूल बाजार जिला-बैतूल.	अध्यक्ष	-	-	वंदना नरेन्द्र कुमार शुक्ला
		पार्षद	1	एक	चन्द्रशेखर ढुँडले
		पार्षद	2	दो	सतीश चन्द्रकिशोर वर्मा
		पार्षद	3	तीन	कु. रोशनी शिवशंकर वर्मा
		पार्षद	4	चार	सरोज रुद्रकुमार
		पार्षद	5	पांच	रमेश माकोड़े

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	6	छः	सुनील पवार
		पार्षद	7	सात	“पद्मा लोनारे”
		पार्षद	8	आठ	“सुनिता पवार”
		पार्षद	9	नौ	कमलती परिहार
		पार्षद	10	दस	राजकुमार पवार (छोटू)
		पार्षद	11	ग्यारह	“कलीराम पवार”
		पार्षद	12	बारह	ममता-राजू राठौर
		पार्षद	13	तेरह	सुभाष राठौर बबलू सेठ
		पार्षद	14	चौदह	रेखा रामकिशोर राठौर
		पार्षद	15	पन्द्रह	“सुरेश गायकवाड़”

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-132.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल अंकों में	पार्षद शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, मुलताई, जिला-बैतूल.	अध्यक्ष	-	-	सुप्रिया संजय यादव
		पार्षद	1	एक	सुनिता रवि यादव
		पार्षद	2	दो	राजू चौबे
		पार्षद	3	तीन	ललीता अशोक वावाजी
		पार्षद	4	चार	जगदीश कोडले (मटरू)
		पार्षद	5	पांच	सविता महेन्द्र (उर्फ पिल्लू जैन)
		पार्षद	6	छः	आशा विजय शुक्ला
		पार्षद	7	सात	कल्पना सतीष जैन
		पार्षद	8	आठ	शारदा अजय साहू
		पार्षद	9	नौ	संतोष साहू
		पार्षद	10	दस	मीना दयाल टिटारे
		पार्षद	11	ग्यारह	मो. आसिफ लोहार
		पार्षद	12	बारह	शिवकुमार माहोरे
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती सरिता राजेन्द्र (बबलू) यादव
		पार्षद	14	चौदह	राजेश उर्फ बन्दु
		पार्षद	15	पन्द्रह	प्रकाश पवार

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-133.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, हाटपिपल्या जिला-देवास.	अध्यक्ष	-	-	शांतीलाल-लालचंद तँवर
		पार्षद	1	एक	संगीता W/o राजेश तँवर
		पार्षद	2	दो	प्रेम मकवाना
		पार्षद	3	तीन	तेजूबाई नरबेसिंह तलाया
		पार्षद	4	चार	कमला विजयसिंह शक्तावत
		पार्षद	5	पांच	श्रीमती कविता अशोक पटेल
		पार्षद	6	छः	रमेशचंद्र रतनलाल निमावत
		पार्षद	7	सात	बेबीबाई कचरूमल जैन
		पार्षद	8	आठ	शीला महेश अंडेरिया
		पार्षद	9	नौ	मनोहर (भुजराज) जाट
		पार्षद	10	दस	अजीत नारायणसिंह जी राजावत
		पार्षद	11	ग्यारह	फूलचंद मांगीलाल धोसरिया
		पार्षद	12	बारह	कमला पति शंकरलाल गवली
		पार्षद	13	तेरह	हरीशं बंजारा (धोबी)
		पार्षद	14	चौदह	शारदाबाई पति विक्रम तँवर
पार्षद	15	पन्द्रह	सोनू S/o रमेशचंद्र भैरवे		

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-134.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, बागली जिला-देवास.	अध्यक्ष	-	-	ठा. भारतसिंह सौलंकी
		पार्षद	1	एक	जितेन्द्र पचोरिया (जीतू)
		पार्षद	2	दो	महेन्द्र तंवर
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती लक्ष्मी
		पार्षद	4	चार	रेखा संतोष परमार
		पार्षद	5	पांच	भूरीबाई

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	6	छः	हरिसिंह कर्मा
		पार्षद	7	सात	कमल यादव
		पार्षद	8	आठ	रुखसाना
		पार्षद	9	नौ	शमीम
		पार्षद	10	दस	श्रीमती कल्पना
		पार्षद	11	ग्यारह	अर्चना
		पार्षद	12	बारह	मुकेश कुमार
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती श्यामाबाई जोधा
		पार्षद	14	चौदह	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव (गुड्डा भय्या)
		पार्षद	15	पन्द्रह	लक्ष्मीनारायण जायसवाल

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-135.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, कन्नौद जिला-देवास.	अध्यक्ष	-	-	उमाबाई पति राधेश्याम पंवार
		पार्षद	1	एक	आरती राजेश टाईगर
		पार्षद	2	दो	सुशीला-गोविन्द "माई"
		पार्षद	3	तीन	परवीन बी W/o आशिक माचिया
		पार्षद	4	चार	शकील अहमद S/o शहीद अहमद (शकील कुरेशी)
		पार्षद	5	पांच	दिलीप कहार
		पार्षद	6	छः	"मंगू" मंगलसिंह दरबार
		पार्षद	7	सात	संगीता संतोष बाहेती
		पार्षद	8	आठ	संजय भारतीय (बंडू) पिता शंकरलाल भारतीय
		पार्षद	9	नौ	आशाबाई W/o सुरेशचन्द्र जोशी
		पार्षद	10	दस	देवकाबाई पति बाबूलाल गदले
		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती सरला शांताराम बोहरे
		पार्षद	12	बारह	जमनाबाई मनोहरलाल वर्मा
पार्षद	13	तेरह	राजेश चौहान		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	14	चौदह	आमना बी पति रहमान
		पार्षद	15	पन्द्रह	रामविलास पिता रामलाल

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-136.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, करनावद जिला-देवास.	अध्यक्ष	-	-	देवीसिंह ठाकुर
		पार्षद	1	एक	अनुराधा-नारायण लोधी
		पार्षद	2	दो	आजमअली शेरअली
		पार्षद	3	तीन	डॉ. रवि मोहनलाल शर्मा
		पार्षद	4	चार	सावित्रा-ओमप्रकाश पाटीदार
		पार्षद	5	पांच	शान्ताबाई-बद्रीलाल पाटीदार
		पार्षद	6	छः	शान्ताबाई-बद्रीलाल पाटीदार
		पार्षद	7	सात	शकुबाई-हीरालाल बागवान
		पार्षद	8	आठ	कन्हैयालाल-बजेसिंह पाटीदार
		पार्षद	9	नौ	रेहमत उल्लाखान पठान
		पार्षद	10	दस	कैलाश-छोटेला
		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती गीताबाई करण
		पार्षद	12	बारह	दीपक-मानसिंह रावत
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती सन्तु-कुंवरसिंह भील
		पार्षद	14	चौदह	रमेश-गुलाब
		पार्षद	15	पन्द्रह	सुमित्राबाई-देवीलाल

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-137.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, कांटाफोड़ जिला-देवास.	अध्यक्ष	-	-	रमेशचन्द्र पिता मुकुन्दराम कर्मा
		पार्षद	1	एक	सुशीला देवी-दुर्गाप्रसाद
		पार्षद	2	दो	सुन्दरबाई-श्यामलाल मालवीया
		पार्षद	3	तीन	योगी राजेन्द्र पिता बाबूलाल
		पार्षद	4	चार	शैतान जयराम गजाखेड़ी
		पार्षद	5	पांच	अनिल सुरजीत (नीलू)
		पार्षद	6	छः	रमाबाई-रेवाराम
		पार्षद	7	सात	संतोष सुन्दरलाल
		पार्षद	8	आठ	रमेश गणपत पटेल
		पार्षद	9	नौ	मनोज-श्यामलाल होलानी
		पार्षद	10	दस	गीताबाई-जगदीश पंढरीनाथ
		पार्षद	11	ग्यारह	सायराबी बब्बूअली
		पार्षद	12	बारह	नूरजहांबी-अय्यूब खॉ
		पार्षद	13	तेरह	किरणबाई बिसराम
		पार्षद	14	चौदह	हरिओम-गोपी
पार्षद	15	पन्द्रह	रामकुंवर-गबूसिंह		

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-138.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत-खातेगांव, जिला-देवास.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती रजनी दिनेश यादव
		पार्षद	1	एक	संजय रामचन्द्र अग्रवाल
		पार्षद	2	दो	श्रीमती गिरजा अजय तिवारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती भारती अनिल यादव
		पार्षद	4	चार	कमलाबाई यादव (मण्डलोई)
		पार्षद	5	पांच	श्रीमती बसन्ती बाई कचरूलाल साहू पडियाड
		पार्षद	6	छः	आनंद हरकचन्द चिंतामन
		पार्षद	7	सात	श्रीमती बसुबाई मैक्मिलन पंवार
		पार्षद	8	आठ	बशीरनबी इस्माइलखां ड्रायवर
		पार्षद	9	नौ	अजयसिंह सवाईसिंह मर्सकोले
		पार्षद	10	दस	श्रीमती रेशम दीपक राठौर
		पार्षद	11	ग्यारह	रामेश्वर रामप्रसाद यादव
		पार्षद	12	बारह	सुनील दयाशंकर यादव (झब्बू)
		पार्षद	13	तेरह	दीनदयाल रावडिया
		पार्षद	14	चौदह	शैलेश कचरूलाल यादव (दीवानजी)
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमती सारिका नरेन्द्र चौधरी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-139.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसारण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत-लोहारदा जिला-देवास.	अध्यक्ष	-	-	गोविन्द पिता नारायण सीरा (पप्पू सीरा)
		पार्षद	1	एक	मनाबाई सुरेशचन्द्र माली
		पार्षद	2	दो	रेखा संतोष बालोत
		पार्षद	3	तीन	गोविन्द प्रहलाद चौरसिया
		पार्षद	4	चार	योगेन्द्र (पप्पू) प्रहलाद परसाई
		पार्षद	5	पांच	जायदाबी सरदार
		पार्षद	6	छः	हरिप्रसाद हीरालाल पटेल
		पार्षद	7	सात	योगेश कैलाशचन्द्र पाटोदी
		पार्षद	8	आठ	कुलसुमबी आजाद
		पार्षद	9	नौ	सुनिता सुरेश चाबरे
		पार्षद	10	दस	राधाबाई रामौतार मीणा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	11	ग्यारह	देवलाल हजारी
		पार्षद	12	बारह	गायत्री मानसिंह
		पार्षद	13	तेरह	लक्ष्मण श्रीकिशन
		पार्षद	14	चौदह	छोटीबाई रामविलास
		पार्षद	15	पन्द्रह	रमेश कालु भिलाला

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-140.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत-सतवास जिला-देवास.	अध्यक्ष	-	-	श्री सुनील शिवप्रसाद तिवारी
		पार्षद	1	एक	ममता-अजय
		पार्षद	2	दो	अनीसा-बाबुखॉ
		पार्षद	3	तीन	ईशाकरखॉ-हमीदखॉ
		पार्षद	4	चार	माधुरी-रूपेश सिंगी
		पार्षद	5	पांच	विनोद-ब्रजमोहन राठी
		पार्षद	6	छः	शैलेश-जगदीश
		पार्षद	7	सात	द्रोपती-मोतीलाल
		पार्षद	8	आठ	किरणबाई-पूनमचन्द
		पार्षद	9	नौ	मुकेश-बेशता
		पार्षद	10	दस	राधेश्याम-कोदर
		पार्षद	11	ग्यारह	मुनीशा-शब्दरखॉ
		पार्षद	12	बारह	निशारखॉ-सुभानखॉ
		पार्षद	13	तेरह	मरियम-हब्बूखॉ
		पार्षद	14	चौदह	अमीनाबी-छोटेखॉ
		पार्षद	15	पन्द्रह	संतीष-रामचरण

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-141.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र. (1)	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)
			अंकों में (4)	शब्दों में (5)	
1	नगर पंचायत-भौरासा जिला-देवास.	अध्यक्ष	-	-	संजयकुमार चन्द्र शेखर जोशी (परसाई महाराज)
		पार्षद	1	एक	नर्मदाबाई बद्रीलाल लोधी
		पार्षद	2	दो	गीताबाई मानसिंह लोधी
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती ललिता अशोक कुमार राठौर
		पार्षद	4	चार	सविता राजकुमार पटेल
		पार्षद	5	पांच	शकील खॉ पिता हुसैन खॉ
		पार्षद	6	छः	सुगनबाई जमनालाल
		पार्षद	7	सात	अनिल चावड़ा
		पार्षद	8	आठ	सुरेशचन्द्र गिरधारी
		पार्षद	9	नौ	संजय कुमार बारोड़
		पार्षद	10	दस	आरामसिंह कन्हैयालाल ठाकुर
		पार्षद	11	ग्यारह	श्यामुबाई देवीसिंह
		पार्षद	12	बारह	कमरुनिशा रउफ खॉ
		पार्षद	13	तेरह	“अबरार गांधी”
		पार्षद	14	चौदह	खालीक (गुड्डू)
		पार्षद	15	पन्द्रह	कमला बहादरसींह भाटिया

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-142.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र. (1)	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)
			अंकों में (4)	शब्दों में (5)	
1	नगर पंचायत-सोनकच्छ जिला-देवास.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती अनिता-कैलाशसिंह चौधरी
		पार्षद	1	एक	रमेशचन्द्र खेलवाल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	2	दो	श्रीमती सीमा ओमप्रकाश बोरवाल
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती दुर्गा राजेश बारोड
		पार्षद	4	चार	श्रीमती सविता श्री राम शर्मा
		पार्षद	5	पांच	प्रमिला राधेश्याम गजेश्वर
		पार्षद	6	छः	श्रीमती रत्ना बाई पांचाल
		पार्षद	7	सात	रामकिशोर जाधव-गंगाराम जाधव
		पार्षद	8	आठ	रसीद खॉ बशीर खॉ
		पार्षद	9	नौ	श्रीमती तबस्सुम पति जाकिर फौजदार
		पार्षद	10	दस	मोहम्मद आरीफ खॉ "गब्बर"
		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती प्रेमकुंवर मानसिंह गौड़
		पार्षद	12	बारह	संतोष तिवारी
		पार्षद	13	तेरह	धमेन्द्र नामदेव
		पार्षद	14	चौदह	गीता बाई मालवीय
		पार्षद	15	पन्द्रह	अजीत सिंह बघेल (नाना भाई)

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. एफ. 65-08-09-तीन-143.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, खांचरौद जिला-उज्जैन.	अध्यक्ष	-	-	विजय कुमार सेठी
		पार्षद	1	एक	श्रीमती आशा "बबलु" मालवीय
		पार्षद	2	दो	ज्योति मीणा
		पार्षद	3	तीन	नासीर खॉन आ. शादीक खॉन
		पार्षद	4	चार	राजू परमार
		पार्षद	5	पांच	नारायण मण्डावलिया
		पार्षद	6	छः	रामसुखी बाई बम्बोरिया
		पार्षद	7	सात	कमला बाई
		पार्षद	8	आठ	रामचन्द्र उर्फ बालाजी आ. भगवान
		पार्षद	9	नौ	चन्दो बी - अन्सार उद्दीन
		पार्षद	10	दस	कलाबाई-ओमप्रकाश नन्देड़ा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	11	ग्यारह	फरीदा-लईक रहमानी
		पार्षद	12	बारह	"संगीता-बंशीलाल दरिया"
		पार्षद	13	तेरह	नारायण संगीतला
		पार्षद	14	चौदह	मोहम्मद अली बोहरा
		पार्षद	15	पन्द्रह	जितेन्द्र शर्मा पंडित
		पार्षद	16	सोलह	श्रीमती राजकुमारी शर्मा
		पार्षद	17	सत्रह	फारूक अली
		पार्षद	18	अठारह	ममता राठौड़
		पार्षद	19	उन्नीस	कल्पना-अरविन्द बुडावनवाला
		पार्षद	20	बीस	पंकज निगम
		पार्षद	21	इक्कीस	शीव मुड़ीया

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. एफ. 65-08-09-तीन-144.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, नागदा जिला-उज्जैन.	अध्यक्ष	-	-	शोभा गोपाल यादव
		पार्षद	1	एक	श्यामचरण मरमट
		पार्षद	2	दो	राजेश पाल
		पार्षद	3	तीन	संगीता पति सांवरिया प्रजापत
		पार्षद	4	चार	सोनिका चौहान
		पार्षद	5	पांच	प्रमोदसिंह चौहान
		पार्षद	6	छः	रेखा मोदी
		पार्षद	7	सात	बबीता रघुवंशी प्रति प्रहलाद
		पार्षद	8	आठ	दिनेश गुर्जर
		पार्षद	9	नौ	राजेन्द्र कुमार गुर्जर
		पार्षद	10	दस	राजेश धाकंड
		पार्षद	11	ग्यारह	भाई फिरोज आजम
		पार्षद	12	बारह	सुनीता विजय पोरवाल
		पार्षद	13	तेरह	गीतादेवी बसन्तकुमार मण्डोरा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	14	चौदह	सारिका सुनिलसिंह चौहान
		पार्षद	15	पन्द्रह	हेमलता बागडी पति जगदीश बागडी
		पार्षद	16	सोलह	अनिल जोशी
		पार्षद	17	सत्रह	रेखा नरेन्द्र कोठारी
		पार्षद	18	अठारह	सुनीता राधे जायसवाल
		पार्षद	19	उन्नीस	कल्याणसिंह कुशवाह
		पार्षद	20	बीस	शशिकांत मावर
		पार्षद	21	इक्कीस	उर्मिला पति अशोककुमार साहनी
		पार्षद	22	बाईस	परवीन शाह
		पार्षद	23	तेईस	बिंदियादेवी गुरुप्रसाद
		पार्षद	24	चौबीस	नवीन कोरट पिता जगदीश
		पार्षद	25	पच्चीस	विक्रमसिंह शेखावत
		पार्षद	26	छब्बास	रमाशंकर मालवीय
		पार्षद	27	सत्ताईस	अंजू रामसिंह शेखावत
		पार्षद	28	अट्ठाईस	कांता पुरन शेर
		पार्षद	29	उन्तीस	सज्जनसिंह शेखावत
		पार्षद	30	तीस	सरोज पति जितेन्द्र
		पार्षद	31	इकतीस	विरेन्द्रसिंह राठौड
		पार्षद	32	बत्तीस	श्रीमती शिल्पा सौचे पति किशोर सौचे
		पार्षद	33	तैंतीस	सत्यकुमार चौरसिया
		पार्षद	34	चौंतीस	महेश अग्रवाल
		पार्षद	35	पैंतीस	रघुनाथ पिता हल्का
		पार्षद	36	छत्तीस	श्रीमती सीमा ठाकुर

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. एफ. 65-08-09-तीन-145.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष/पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, बड़नगर जिला-उज्जैन.	अध्यक्ष पार्षद	- 1	- एक	श्री मुकेश पंड्या नाजनीन शेखमुख्तियार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	2	दो	रमेशचन्द्र मिश्रा
		पार्षद	3	तीन	मीना मुकेश मोरवाल
		पार्षद	4	चार	अलका सुरेन्द्र पाटोदी
		पार्षद	5	पांच	अमित नरेन्द्र राठोड़
		पार्षद	6	छः	सतीश वर्मा
		पार्षद	7	सात	महेश शुक्ला
		पार्षद	8	आठ	अनिल बड़जात्या
		पार्षद	9	नौ	तृप्ती मनीष ओरा (बालोदा वाला)
		पार्षद	10	दस	श्री भारत डाबी
		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती हंसा जैन
		पार्षद	12	बारह	शकील एहमद पिता मोहम्मद हुसैन
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती ज्योति राजेन्द्र 'चोहान उर्फ "राजू चाचा"
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती रूखसाना बी
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्री मुकेश राधेश्याम चौधरी
		पार्षद	16	सोलह	आशा रामेश्वर मकवाना
		पार्षद	17	सत्रह	श्री सुनील कुमार मकवाना
		पार्षद	18	अठारह	श्रीमती मुमताज बी फकीर मोहम्मद

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. एफ. 65-08-09-तीन-146.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, महिदपुर जिला-उज्जैन.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती रजिया बी पति साबीर मोहम्मद
		पार्षद	1	एक	श्री दिलीप मेहता
		पार्षद	2	दो	श्री शरद परमार
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती उषा जोशी
		पार्षद	4	चार	श्री हाजी मोहम्मद मुंशी
		पार्षद	5	पांच	श्री मुकेश नवलखा
		पार्षद	6	छः	किशोर वर्मा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	7	सात	श्रीमती मुमताज बी हजानी
		पार्षद	8	आठ	श्रीमती शहरबानो शहाबुद्दीन
		पार्षद	9	नौ	श्री शंकर दावरे
		पार्षद	10	दस	श्रीमती अर्पणा विजय सोलंकी
		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती मंजुला ऋषभ कुमार
		पार्षद	12	बारह	श्रीमती प्रतिभा कटारिया
		पार्षद	13	तेरह	डॉ. शाहिद पीर जी
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती प्रेमबाई दावरे
		पार्षद	15	पन्द्रह	रजिया बेगम पति अ. रसीद
		पार्षद	16	सोलह	श्री सुमित चौपडा
		पार्षद	17	सत्रह	श्रीमती कुलसुम बी
		पार्षद	18	अठारह	दीपिका उर्फ नीतू जोशी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-147.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत-उन्हैल जिला-उज्जैन.	अध्यक्ष	-	-	कैलाश विपट
		पार्षद	1	एक	गंगाबाई-नगजी खमोरिया
		पार्षद	2	दो	श्री मंजुर खां मुलतानी
		पार्षद	3	तीन	श्री संजय शिन्दे
		पार्षद	4	चार	अजीज फातमा पति रहीमखां (रैहमा)
		पार्षद	5	पांच	श्रीमती लीलाबाई पति लालजी खमोरिया (धाकड़)
		पार्षद	6	छः	श्री बाबूलाल खमोरिया
		पार्षद	7	सात	जमनाबाई जगदीश नरवाडीया
		पार्षद	8	आठ	श्री रमेश सिधनाथ दर्जी (नानु)
		पार्षद	9	नौ	अखिलेश चन्द्रशेखर उपाध्याय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	10	दस	दिलीप मोदी
		पार्षद	11	ग्यारह	श्री जाफर खॉन भुरे खॉ
		पार्षद	12	बारह	श्रीमती सविता रमेश चन्द माली
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती नसीम बी अब्दूल सत्तार खॉ चौधरी
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती चन्दाबाई-चन्द्रलाल चौहान
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्री दिनेश वसुनिया

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-148.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत-माकड़ोन जिला-उज्जैन.	अध्यक्ष	-	-	होकमबाई मदनलाल भाटी
		पार्षद	1	एक	मुलचंद पिता काशीराम
		पार्षद	2	दो	चांद खॉ पिता कासम खॉ
		पार्षद	3	तीन	देवबाई चौहान
		पार्षद	4	चार	श्यामुबाई पति रतनसिंह
		पार्षद	5	पांच	गोवर्धनसिंह पिता मोढ़सिंह
		पार्षद	6	छः	हेमलता प्रजापति
		पार्षद	7	सात	सुमित्रा कन्हैयालाल पंवार
		पार्षद	8	आठ	गंगाबाई पति उदाजी
		पार्षद	9	नौ	आत्माराम पिता भंवरलाल
		पार्षद	10	दस	रेखाबाई किरण कुमार बढिया
		पार्षद	11	ग्यारह	यशवंत पिता मूलचंद गामी
		पार्षद	12	बारह	लक्ष्मीबाई अशोक बोहरा
		पार्षद	13	तेरह	मनोज पिता शांतिलाल
		पार्षद	14	चौदह	महेश पिता रामचन्द्र
		पार्षद	15	पन्द्रह	दिलीप धाकड

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-149.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत-तराना जिला-उज्जैन.	अध्यक्ष	-	-	सुनंदा राजेश डोडिया
		पार्षद	1	एक	रीना बी शैख यासीन (गबा)
		पार्षद	2	दो	श्रीमती माया शक्तिसिंह परिहार
		पार्षद	3	तीन	रामप्रसाद जावा
		पार्षद	4	चार	श्रीमती सीमा दीपक दवे
		पार्षद	5	पांच	श्रीमती शान्ती बहादुर बैरागी
		पार्षद	6	छः	पवन देवनारायण बारोड
		पार्षद	7	सात	श्रीमती निशा राकेश दिक्षित
		पार्षद	8	आठ	द्वारकाधीश शर्मा
		पार्षद	9	नौ	रानूबी पति फिरोज पेंथर
		पार्षद	10	दस	किशनलाल सोनी
		पार्षद	11	ग्यारह	मलका बी
		पार्षद	12	बारह	रूबाब खॉ पिता बशीर खॉ
		पार्षद	13	तेरह	अनुसुईया
		पार्षद	14	चौदह	सुल्तान खान
पार्षद	15	पन्द्रह	भैरूलाल बोड़ाना		

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-150.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, बाबई जिला-होशंगाबाद.	अध्यक्ष	-	-	विनोद कुमार आचार्य (मामू)
		पार्षद	1	एक	यशोदा W/o विनोद
		पार्षद	2	दो	मुकेश सरयाम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती कस्तूरी पत्नी श्री जगदीश
		पार्षद	4	चार	“बाबू भाई (मैकेनिक)”
		पार्षद	5	पांच	रामसखी पत्नी जीवनलाल
		पार्षद	6	छः	श्रीमती सुमन प्रजापति
		पार्षद	7	सात	सुरेन्द्र कुमार (सिल्लू)
		पार्षद	8	आठ	शांतिबाई विष्णुप्रसाद कहार
		पार्षद	9	नौ	आदेश शर्मा
		पार्षद	10	दस	“विमला सुरेश खंडेलवाल”
		पार्षद	11	ग्यारह	“महेश कुमार साहू”
		पार्षद	12	बारह	कविताबाई प. दिनेश कुमार
		पार्षद	13	तेरह	विशाल शांकुल (बंटू)
		पार्षद	14	चौदह	संजयसिंह छीपा आ. रविशंकर छीपा
		पार्षद	15	पन्द्रह	शांतिबाई पत्नी सीताराम अहीर

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. एफ. 65-08-09-तीन-151.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, होशंगाबाद जिला-होशंगाबाद	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती माया नारोलिया
		पार्षद	1	एक	तेज कुमार महेश कुमार
		पार्षद	2	दो	प्रमोद बाबूलाल सोनी (घोटू)
		पार्षद	3	तीन	ऊषा मदनलाल डोंगरे (भूरा)
		पार्षद	4	चार	श्रीमती कमला प्रकाश सैनी
		पार्षद	5	पांच	नवीन कुमार उर्फ (दीपू)
		पार्षद	6	छः	“ताराचन्द कदम”
		पार्षद	7	सात	कुलदीप राठौर
		पार्षद	8	आठ	सोनू गक्खर
		पार्षद	9	नौ	उमा शिवहरे
		पार्षद	10	दस	मुकेश यादव S/o श्री शिवनारायण यादव
		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती तारा रविशंकर मालवीय
		पार्षद	12	बारह	ज्योति अभय वर्मा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती अनिता राजेश माछिया
		पार्षद	14	चौदह	अर्चना टिंकू मिश्रा
		पार्षद	15	पन्द्रह	रंजना मुकेश यादव
		पार्षद	16	सोलह	महेश बाबरिया
		पार्षद	17	सत्रह	माया प्रकाश गौर (गौर मामा)
		पार्षद	18	अठारह	भाई अनोखेलाल राजोरिया
		पार्षद	19	उन्नीस	सुनील मनवारे
		पार्षद	20	बीस	लता माधव बहन
		पार्षद	21	इक्कीस	संपत/डी.सी. बाँड्या
		पार्षद	22	बाईस	अशोक कुशराम "मुट्टा"
		पार्षद	23	तेईस	श्रीमती सीमा उइके
		पार्षद	24	चौबीस	अंजू रानी
		पार्षद	25	पच्चीस	संतोष उपाध्याय
		पार्षद	26	छब्बीस	निशाार खान "पप्पू भाई"
		पार्षद	27	सत्ताईस	तपेश
		पार्षद	28	अट्ठाईस	जयकुमार चौकसे "शेटी भाई"
		पार्षद	29	उन्तीस	विमला यादव
		पार्षद	30	तीस	निर्मला पत्नि इमरतलाल (मुन्ना ग्वाला)
		पार्षद	31	इकतीस	किशनलाल यादव आ. स्व. श्री कालूराम यादव
		पार्षद	32	बत्तीस	दीपसिंह सिसोदिया (दीपक)
		पार्षद	33	तैंतीस	वंदना विमल चुटीले

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. एफ. 65-08-09-तीन-152—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, इटारसी जिला-होशंगाबाद.	अध्यक्ष पार्षद	- 1	- एक	रवि जैसवाल संतोष पथरौट उर्फ बाबू वशीम खान

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	2	दो	लक्ष्मीबाई जे. पी. गालर
		पार्षद	3	तीन	भागेश्वरी शिवकिशोर रावत
		पार्षद	4	चार	हेमलता राजकुमार
		पार्षद	5	पांच	आशा रामकुमार पटेल (मुन्नी)
		पार्षद	6	छः	कैलाश चौरसिया
		पार्षद	7	सात	शारदा शरद बामने
		पार्षद	8	आठ	एडव्होकेट इरसाद अहमद सिद्धिकी "मुन्ना भाई"
		पार्षद	9	नौ	सुधा यादव
		पार्षद	10	दस	बेबी नसरीन मो. सिद्धीक
		पार्षद	11	ग्यारह	भाई रजनीकांत सोनकर
		पार्षद	12	बारह	कुलदीप रावत
		पार्षद	13	तेरह	रेखा प्रदीप मालवीय
		पार्षद	14	चौदह	कविता मनोज गुड्डू गुप्ता
		पार्षद	15	पन्द्रह	शंकर पहलवान
		पार्षद	16	सोलह	कुलदीप कौर
		पार्षद	17	सत्रह	सुनिति मनोज चौरै
		पार्षद	18	अठारह	हरप्रीत छावड़ा
		पार्षद	19	उन्नीस	श्री सम्राट तिवारी आ. श्री सुनील तिवारी
		पार्षद	20	बीस	राकेश जाधव
		पार्षद	21	इक्कीस	निजामउद्दीन
		पार्षद	22	बाईस	मन्जु पति कमल आर्य
		पार्षद	23	तेईस	अनिल कुमार यादव
		पार्षद	24	चौबीस	सीमा अनिल भदौरिया
		पार्षद	25	पच्चीस	राजेन्द्र जोशी
		पार्षद	26	छब्बीस	वीरेन्द्र पाल सिंह (टीटू भाटिया)
		पार्षद	27	सत्ताईस	ईश्वरी देवी सोनी
		पार्षद	28	अट्ठाईस	कविता सन्नी चेलानी
		पार्षद	29	उन्तीस	"कलावती रैकवार"
		पार्षद	30	तीस	नीलेश मालोरिया
		पार्षद	31	इकतीस	यज्ञदत्त (लालू) गौर
		पार्षद	32	बत्तीस	कुसुम कमल किशोर जैन
		पार्षद	33	तैंतीस	नवल सिंह (राजा)
		पार्षद	34	चौतीस	राधा बाई पति सुरेश पथरौट गौरा (सुरेश)

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-153.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद, पिपरिया, जिला-होशंगाबाद.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती सरिता बलराम बैस
		पार्षद	1	एक	श्रीमती किरण रघुवंशी
		पार्षद	2	दो	श्रीमती आरती मालवीय
		पार्षद	3	तीन	श्री संतोष कुमार
		पार्षद	4	चार	श्रीमती सरोज मोर्य
		पार्षद	5	पांच	श्री उदय सिंह राजपूत
		पार्षद	6	छः	श्री छगनलाल सिलावट
		पार्षद	7	सात	श्रीमती ममता राजेश फौजी
		पार्षद	8	आठ	श्री परेश कोठारी
		पार्षद	9	नौ	श्री संतोष कुमार परते
		पार्षद	10	दस	श्रीमती उषा जगदीश मेहरा
		पार्षद	11	ग्यारह	श्री मनोज परसाई
		पार्षद	12	बारह	श्रीमती उमा राजा सोनी
		पार्षद	13	तेरह	श्री धर्मेन्द्र मेघवानी
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती मनीषा राजेन्द्र उपाध्याय
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमती प्रभा साहू
		पार्षद	16	सोलह	श्रीमती राजकुमारी सोनी
		पार्षद	17	सत्रह	श्रीमती मंजू चौरसिया
		पार्षद	18	अठारह	श्रीमती रेहाना रज्जाक खान
		पार्षद	19	उन्नीस	श्री किशोर डाबर
		पार्षद	20	बीस	श्री बलराम पटेल
		पार्षद	21	इक्कीस	श्री कृष्ण गोपाल मानधन्या

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-154.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, सिवनी मालवा, जिला-होशंगाबाद.	अध्यक्ष	-	-	राजेन्द्र कुमार ज्ञानचंद जैन (राजू जैन)
		पार्षद	1	एक	सुनील कुमार कलसिया (बाबा)
		पार्षद	2	दो	दीपक कुमार अग्रवाल
		पार्षद	3	तीन	राजेन्द्र कुमार (राजू साध)
		पार्षद	4	चार	अब्दुल समद (पठान)
		पार्षद	5	पांच	श्रीमती प्रीति पवन शुक्ला
		पार्षद	6	छः	श्रीमती सुनीता लौवंशी
		पार्षद	7	सात	लक्ष्मीकांत-छज्जूलाल सिसोदिया (लच्छू मामा)
		पार्षद	8	आठ	श्रीमती रेखा विनोदचन्द्र शर्मा (एडव्होकेट)
		पार्षद	9	नौ	श्रीमती ज्योति नंदकिशोर व्यास
		पार्षद	10	दस	महेश कुमार उइके
		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती प्रमिला गौर
		पार्षद	12	बारह	जान मोहम्मद मंसूरी (जानू भाई)
		पार्षद	13	तेरह	संगीता उमेश कुमार राठौर
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती अनीता पति राजेश वाथव
		पार्षद	15	पन्द्रह	अंगूरी संतोष जोशी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-155.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, सोहागपुर जिला-होशंगाबाद.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती शीतल मनोज खण्डेलवाल
		पार्षद	1	एक	शोभा जगदीश अहिरवार
		पार्षद	2	दो	सरोज संतोष रघुवंशी
		पार्षद	3	तीन	संजय मालवीय "संजू"
		पार्षद	4	चार	अमृता राकेश चौरसिया
		पार्षद	5	पांच	जमील बहीद
		पार्षद	6	छः	अमीना अजीज पहलवान
		पार्षद	7	सात	पुष्पा अजय वर्मा
		पार्षद	8	आठ	तुलसीराम कुशवाह अधिवक्ता
		पार्षद	9	नौ	यशवंत पटैल (बबलू)
		पार्षद	10	दस	इस्मानुएल आशीषकुमार (इम्मू)
		पार्षद	11	ग्यारह	भाग्यश्री मनोज गोलानी
		पार्षद	12	बारह	अनिलकुमार (अज्जू वारसिया)
		पार्षद	13	तेरह	धर्मदास बेलवंशी
		पार्षद	14	चौदह	रितु साहू
		पार्षद	15	पन्द्रह	

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-156.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, विदिशा, जिला-विदिशा.	अध्यक्ष	-	-	ज्योति शाह
		पार्षद	1	एक	सूरजसिंह किरार
		पार्षद	2	दो	अशोक रतनसिंह जाट
		पार्षद	3	तीन	शशि राजकुमार राय
		पार्षद	4	चार	मनमोहन यादव
		पार्षद	5	पांच	सचिन (सोनू) भावसार
		पार्षद	6	छः	सुनीता राजेश नेमा (भटियारा)
		पार्षद	7	सात	मनीषा सन्तोष सक्सेना
		पार्षद	8	आठ	रहमान राईन
		पार्षद	9	नौ	संजय यादव
		पार्षद	10	दस	शीला देवी कैलाश चन्द्र
		पार्षद	11	ग्यारह	सुनीता उदयपालसिंह चंदेल
		पार्षद	12	बारह	सुनीता अशोक मालवीय
		पार्षद	13	तेरह	देवेन्द्र खुराना
		पार्षद	14	चौदह	फिरोज खां स्व. मुबारिक खां
		पार्षद	15	पन्द्रह	अवधेश दुबे
		पार्षद	16	सोलह	मनोज कमलेश खीचीं (कल्ला)
		पार्षद	17	सत्रह	सुनीता निरपतसिंह कुशवाह
		पार्षद	18	अठारह	आशादेवी सुभाषचंद्र बोहत
		पार्षद	19	उन्नीस	राजकुमारी कृष्णकुमार गुप्ता
		पार्षद	20	बीस	विनीता सौदानसिंह राय
		पार्षद	21	इक्कीस	संगीता नीरज पाल
		पार्षद	22	बाईस	कमला धर्मेन्द्र ठाकुर
		पार्षद	23	तेईस	रक्षा विनय सक्सेना
		पार्षद	24	चौबीस	अखिलेश जैन (बड़े घर वाले)
		पार्षद	25	पच्चीस	डालचन्द्र नाथूराम अहिरवार
		पार्षद	26	छब्बीस	मीनाक्षी गोपाल खंडेलवाल
		पार्षद	27	सत्ताईस	ममता पाल
		पार्षद	28	अट्ठाईस	बसंत जैन
		पार्षद	29	उन्तीस	शकुन राजू चिडार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	30	तीस	मालतीबाई यादव
		पार्षद	31	इकतीस	शिवराज यादव
		पार्षद	32	बत्तीस	कलीबाई
		पार्षद	33	तैंतीस	अमित कुमार बोस
		पार्षद	34	चौंतीस	सुरेन्द्रसिंह भदौरिया
		पार्षद	35	पैंतीस	सीमा जितेन्द्र तिवारी
		पार्षद	36	छत्तीस	आशीष भदौरिया

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-157.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, बासौदा, जिला-विदिशा.	अध्यक्ष	-	-	मोहनबाबू भावसार पिता श्री रामगोपाल भावसार
		पार्षद	1	एक	मन्नो छोटे भैया
		पार्षद	2	दो	विशाल अग्रवाल
		पार्षद	3	तीन	चन्द्रकान्ती नामदेव "कान्ता"
		पार्षद	4	चार	ताराबाई भगवानदास अहिरवार
		पार्षद	5	पांच	राहुल ठाकुर
		पार्षद	6	छः	अंजली पृथ्वी सिंह रघुवंशी
		पार्षद	7	सात	सरोज रावत
		पार्षद	8	आठ	ठा. जसवंत सिंह दांगी (राजू)
		पार्षद	9	नौ	सुधा जितेन्द्र बाल्मीकि
		पार्षद	10	दस	मनोज अहिरवार
		पार्षद	11	ग्यारह	संजीवकुमार उर्फ संजू धर्मकांटा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	12	बारह	सुनीता, शोभाराम साहू
		पार्षद	13	तेरह	रूपेन्द्र शर्मा "गुड्डा"
		पार्षद	14	चौदह	मनोज यादव
		पार्षद	15	पन्द्रह	शिवदयाल ठाकरे
		पार्षद	16	सोलह	वनदेवी अग्रवाल चन्द्रप्रकाश
		पार्षद	17	सत्रह	राजेश अरोरा
		पार्षद	18	अठारह	श्रीमती सपना अतुल नेमा
		पार्षद	19	उन्नीस	जरदार खॉ मंसूरी
		पार्षद	20	बीस	जीतेन्द्र शर्मा (जीतू)
		पार्षद	21	इक्कीस	श्रीमती उर्मिला भगवान सिंह भावसार
		पार्षद	22	बाईस	अतहर कुरेशी
		पार्षद	23	तेईस	श्रीमती छायादेवी जैन
		पार्षद	24	चौबीस	श्रीमती सीमा साहू पत्नि मनमोहन साहू

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-158.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			पाषद		
(1)	(2)	(3)	अंकों में	शब्दों में	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, सिरोंज जिला-विदिशा.	अध्यक्ष	-	-	राजेन्द्र कुमार गर्ग
		पार्षद	1	एक	ज्योति पप्पू साहू
		पार्षद	2	दो	श्री हरिबाबू भार्गव
		पार्षद	3	तीन	हरिबाई हरिचरण अहिरवार
		पार्षद	4	चार	रूबीना बी
		पार्षद	5	पांच	अय्यूब अली पुत्र बुन्याद अली
		पार्षद	6	छः	फिरदोस जहां फहीम मोहम्मद
		पार्षद	7	सात	शकुन बाई रतनलाल यादव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	8	आठ	मुस्तफा हुसैन
		पार्षद	9	नौ	शांति जयनारायण सेन
		पार्षद	10	दस	भगत सिंह रघुवंशी
		पार्षद	11	ग्यारह	सतीश जैन
		पार्षद	12	बारह	सविता राज कुमार लखपति
		पार्षद	13	तेरह	खेमचन्द कुशवाह
		पार्षद	14	चौदह	मनमोहन साहू
		पार्षद	15	पन्द्रह	इकराम पुत्र मोहम्मद खॉ
		पार्षद	16	सोलह	अन्जनी तोषमनी पंथी
		पार्षद	17	सत्रह	टीकाराम शाक्य
		पार्षद	18	अठारह	नीलम मनोज शर्मा
		पार्षद	19	उन्नीस	सोना राजीव सैनी
		पार्षद	20	बीस	मोहम्मद मियां
		पार्षद	21	इक्कीस	इशरत बी लाल मियां

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-159.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, कुरवाई, जिला- विदिशा.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती रेखा जगदीश साहू
		पार्षद	1	एक	श्री सीताराम सैनी
		पार्षद	2	दो	श्रीमती नसरीन बी मुन्ने खॉ
		पार्षद	3	तीन	श्री गोपाल सिंह गौड़
		पार्षद	4	चार	श्रीमती फैमीदा बी इदरीस खॉ
		पार्षद	5	पांच	“ श्रीमती आसरा आविद ठेकेदार”

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	6	छः	श्री इस्माईल खां कवाडी
		पार्षद	7	सात	मो. इरफान काजी
		पार्षद	8	आठ	श्रीमती रानी उत्तम पंथी
		पार्षद	9	नौ	श्रीमती ज्योति गिरजेश सप्रे
		पार्षद	10	दस	श्री नितिन जैन (पिंटू)
		पार्षद	11	ग्यारह	श्री राजकुमार यादव (गुप्ता)
		पार्षद	12	बारह	श्रीमती रेखा सुहागमल जैन
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती सविताराय (कल्हार)
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती शराफत बी पत्नी सरदार खॉ
		पार्षद	15	पन्द्रह	संदीप पंचम लाल सप्रे

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-160.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, लटेरी जिला- विदिशा.	अध्यक्ष	-	-	दयाराम साहू
		पार्षद	1	एक	मीराबाई सक्सेना
		पार्षद	2	दो	सुनीताबाई मोहनसिंह कुर्मी
		पार्षद	3	तीन	हलीमन पत्नी सादिक खां
		पार्षद	4	चार	भैयालाल विश्वकर्मा
		पार्षद	5	पांच	रमेश ठाकरे
		पार्षद	6	छः	सीतादेवी ठाकरे
		पार्षद	7	सात	हफीज बेग
		पार्षद	8	आठ	सरोज गोस्वामी
		पार्षद	9	नौ	कमलेश जैन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	10	दस	सीमाबाई
		पार्षद	11	ग्यारह	निधि/गिरिजाप्रसाद शर्मा
		पार्षद	12	बारह	रूपेश अग्रवाल
		पार्षद	13	तेरह	उमर खां
		पार्षद	14	चौदह	ममताबाई पत्नी बलवीरसिंह धाकड़ (किरार)
		पार्षद	15	पन्द्रह	उमर खां

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-161.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष/पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, मुंगावली जिला- अशोकनगर.	अध्यक्ष	-	-	महेन्द्र सिंह
		पार्षद	1	एक	नेतराम ग्वाल
		पार्षद	2	दो	नारायण
		पार्षद	3	तीन	हरसूददीबाई पत्नी ब्रजलाल
		पार्षद	4	चार	रूपेश कुमार (मामा)
		पार्षद	5	पांच	दशरथ सिंह (बल्लू)
		पार्षद	6	छः	सोनू जैन (मोदी)
		पार्षद	7	सात	गीता बाई सेन पत्नी श्री सीताराम सेन
		पार्षद	8	आठ	ललताबाई/खेमचंद कुशवाह
		पार्षद	9	नौ	पार्वती देवी/जितेन्द्र साहू
		पार्षद	10	दस	शहनाज (बन्दी)
		पार्षद	11	ग्यारह	सल्लो वी राईन
		पार्षद	12	बारह	रिहाना वानो जफर अहमद

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	13	तेरह	फारूक खां पुत्र बाबू खां
		पार्षद	14	चौदह	सलीम खां पुत्र नूर मोहम्मद
		पार्षद	15	पन्द्रह	मलका वानो पयाम मोहम्मद डिस्क वाले

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-162.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर जिला-अशोकनगर.	अध्यक्ष	-	-	जजपालसिंह "जज्जी"
		पार्षद	1	एक	नाहर सिंह यादव
		पार्षद	2	दो	श्री अभिषेक रघुवंशी (हाड़ा)
		पार्षद	3	तीन	कैलाश बाई
		पार्षद	4	चार	जोहरा बानो (मुनिया)
		पार्षद	5	पांच	श्री अब्दुल शफीक कुरैशी
		पार्षद	6	छः	प्रतिज्ञा पलिया
		पार्षद	7	सात	हरिओम पत्थर
		पार्षद	8	आठ	दामोदर प्रसाद लालू
		पार्षद	9	नौ	श्री मनोज कुमार शर्मा
		पार्षद	10	दस	सीमा कोरी
		पार्षद	11	ग्यारह	सुशीला साहू
		पार्षद	12	बारह	रितु यशलोक चौधरी
		पार्षद	13	तेरह	श्री रोशन राज सिंह यादव
		पार्षद	14	चौदह	रेखा सुमन
		पार्षद	15	पन्द्रह	साधना राकेश जैन (रेडियो)
		पार्षद	16	सोलह	अनिता जैन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	17	सत्रह	श्री देवेन्द्र ताम्रकार (पत्रकार)
		पार्षद	18	अठारह	श्री अशोक पाटनी
		पार्षद	19	उन्नीस	श्री महेन्द्र भारद्वाज
		पार्षद	20	बीस	प्रेमलता दुबे
		पार्षद	21	इक्कीस	बबीता परिहार
		पार्षद	22	बाईस	श्री दीपक (सोनू) सुमन

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-163.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, चंदेरी जिला-अशोकनगर	अध्यक्ष	-	-	श्री गोपाल कोली
		पार्षद	1	एक	श्रीमती प्रीति उपाध्याय
		पार्षद	2	दो	अशोक कुमार कोली
		पार्षद	3	तीन	विवेककान्त भार्गव
		पार्षद	4	चार	पूरन सोनी
		पार्षद	5	पांच	विनोद कुमार जैन
		पार्षद	6	छः	श्रीमती मुन्नी जैन
		पार्षद	7	सात	श्रीमती प्रीति पटैरिया
		पार्षद	8	आठ	श्रीमती पुष्पा देवी लखेरा
		पार्षद	9	नौ	लईक मोहम्मद
		पार्षद	10	दस	श्रीमती विमलेश यादव
		पार्षद	11	ग्यारह	संग्राम सिंह यादव
		पार्षद	12	बारह	किशनलाल कोली
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती राधाबाई अहिरवार
		पार्षद	14	चौदह	नसीमा बानो
		पार्षद	15	पन्द्रह	राजीव जैन
		पार्षद	16	सोलह	गुड्डीबाई अहिरवार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	17	सत्रह	अब्दुल हकीम
		पार्षद	18	अठारह	श्रीमती रजिया बानो
		पार्षद	19	उन्नीस	मायाबाई अहिरवार
		पार्षद	20	बीस	रञ्जूलाल कुशवाह
		पार्षद	21	इक्कीस	श्री मर्दन सेहरिया

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-164.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, जावर जिला-सीहोर	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती अनिता परिहार
		पार्षद	1	एक	राजेन्द्र भरेवा
		पार्षद	2	दो	छतर सिंह
		पार्षद	3	तीन	मीरा बाई
		पार्षद	4	चार	असलम
		पार्षद	5	पांच	समीमउद्दीन
		पार्षद	6	छः	सावित्री पाटीदार
		पार्षद	7	सात	सुमन देवी
		पार्षद	8	आठ	प्रेमदास
		पार्षद	9	नौ	पवित्रा बाई
		पार्षद	10	दस	सुनीता बाई
		पार्षद	11	ग्यारह	कृपाल सिंह
		पार्षद	12	बारह	योगेन्द्र भावसार
		पार्षद	13	तेरह	सुमन बाई
		पार्षद	14	चौदह	मधु ठाकुर
		पार्षद	15	पन्द्रह	बाबू खां

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-165.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, कोटरी, जिला-सीहोर	अध्यक्ष	-	-	प्रीति युवराज सिंह
		पार्षद	1	एक	सीमा पति महेन्द्र
		पार्षद	2	दो	प्रहलाद सिंह पुत्र मोती लाल
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती अनीताबाई पत्नी बनवारीलाल
		पार्षद	4	चार	मंजू संदीप पटेल
		पार्षद	5	पांच	देवकरण तोमर
		पार्षद	6	छः	मन्जु बाई पत्नि लखनलाल
		पार्षद	7	सात	धरमसिंह पिता दलीपसिंह सत्ती वाले
		पार्षद	8	आठ	रामसिंह पुत्र देवबगस
		पार्षद	9	नौ	सरजु बाई पत्नि रामगोपाल माली
		पार्षद	10	दस	तेजपाल/हरलाल
		पार्षद	11	ग्यारह	बबली/दिनेश
		पार्षद	12	बारह	देवकरण पहलवान
		पार्षद	13	तेरह	विक्रमसिंह पुत्र श्री रामचरण
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती मानुबाई पत्नी कैलाश नारायण
		पार्षद	15	पन्द्रह	सजनसिंह पुत्र सरदारसिंह

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-166.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगरपालिका का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, आष्टा, जिला-सीहोर	अध्यक्ष	-	-	डॉ. मीना पति विनीत कुमार सिंगी
		पार्षद	1	एक	श्री धनरूपमल जैन
		पार्षद	2	दो	श्रीमती मनीषा कमलेश जैन
		पार्षद	3	तीन	मुईर्नउद्दीन मंटा भाई
		पार्षद	4	चार	बदरूद्दीन पिता कमरूद्दीन
		पार्षद	5	पांच	श्रीमती अकीदा बी
		पार्षद	6	छः	शबाना बी/महमूद अंसारी
		पार्षद	7	सात	रितु आन्नद जैन
		पार्षद	8	आठ	खालिद कदीर पठान
		पार्षद	9	नौ	अकीला बी पत्नी अफसर हुसैन
		पार्षद	10	दस	परवीन बी इदरीस मंसूरी
		पार्षद	11	ग्यारह	हसीब बैग/हबीब बैग
		पार्षद	12	बारह	कालू भट्ट पुत्र मुरली मनोहर भट्ट
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती शकुंतला पत्नी प्रकाश छाजेड़
		पार्षद	14	चौदह	बाबूलाल मालवीय
		पार्षद	15	पन्द्रह	चम्पा बाई पति पर्वतलाल
		पार्षद	16	सोलह	पंकज यादव पिता श्री कप्तानसिंह यादव
		पार्षद	17	सत्रह	नीलेश अनोखीलाल खण्डेलवाल
		पार्षद	18	अट्ठारह	गिरजा कुशवाहा/माखन लाल कुशवाहा

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-167.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, इछावर जिला-सीहोर	अध्यक्ष	-	-	सुनील कुमार
		पार्षद	1	एक	कृपाल सिंह
		पार्षद	2	दो	हिम्मत सिंह वर्मा
		पार्षद	3	तीन	बृजेन्द्र तिवारी
		पार्षद	4	चार	तनुजा सेन
		पार्षद	5	पांच	सादिक मोहम्मद
		पार्षद	6	छः	अंगूरी बी
		पार्षद	7	सात	सुनीता मकरैया
		पार्षद	8	आठ	नीरज रवि अग्रवाल
		पार्षद	9	नौ	“अनीता पप्पू यादव”
		पार्षद	10	दस	“देवेन्द्र महेश्वरी”
		पार्षद	11	ग्यारह	“धनपाल”
		पार्षद	12	बारह	“सौरम बाई”
		पार्षद	13	तेरह	“राधे श्याम”
		पार्षद	14	चौदह	“अंजुम शन्नो”
		पार्षद	15	पन्द्रह	“जमशेद बेग”

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-168.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, बुदनी जिला-सीहोर	अध्यक्ष	-	-	श्री सुभाष कुमार आ. श्री जयकुमार
		पार्षद	1	एक	सुनील कुमार आ. श्री रामचरण
		पार्षद	2	दो	सरोज शर्मा पत्नी श्री मंगली प्रसाद शर्मा
		पार्षद	3	तीन	सुनील पंजाबी पुत्र दुल्हाराम पंजाबी
		पार्षद	4	चार	जानकी पटेल पत्नी रमेश कुमार पटेल
		पार्षद	5	पांच	नरेश चिनमाने
		पार्षद	6	छः	मंजू प्रमोद चौहान
		पार्षद	7	सात	प्रभात सिंह भदौरिया
		पार्षद	8	आठ	गया प्रसाद यादव पुत्र श्री कनीराम यादव
		पार्षद	9	नौ	देवेन्द्र सिंह आ. मोतीसिंह
		पार्षद	10	दस	श्रीमती संजीदा खुर्रम पटेल
		पार्षद	11	ग्यारह	विरजमोहन पिता गुलाब सिंह
		पार्षद	12	बारह	सुमन माधौ सिंह आजाद
		पार्षद	13	तेरह	पुष्पा विजय सिंह राजपूत
		पार्षद	14	चौदह	रुकमणी पत्नी बलराम
		पार्षद	15	पन्द्रह	कृति पत्नी नीलेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-169.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, रेहटी जिला-सीहोर	अध्यक्ष	-	-	श्री रघुवीर सिंह पटेल
		पार्षद	1	एक	मनोज कुमार
		पार्षद	2	दो	पुष्पाबाई
		पार्षद	3	तीन	जयप्रकाश लल्ली
		पार्षद	4	चार	अशोक कुमार
		पार्षद	5	पांच	बलवीर चौहान
		पार्षद	6	छः	संतोष सिंह पचभैया
		पार्षद	7	सात	विद्या सतीश वर्मा
		पार्षद	8	आठ	जगदीश प्रसाद
		पार्षद	9	नौ	राजामणि मंगलसिंह
		पार्षद	10	दस	रेणुका स्वरूपसिंह
		पार्षद	11	ग्यारह	शमशाद बेगम शेख लतीफ
		पार्षद	12	बारह	तेजसिंह चौहान
		पार्षद	13	तेरह	उर्मिला आत्माराम
		पार्षद	14	चौदह	दिनेश पटेल
		पार्षद	15	पन्द्रह	निर्मला नेपाल सिंह चौहान

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-170.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, नसरुल्लागंज जिला-सीहोर	अध्यक्ष	-	-	श्री द्वारका अग्रवाल
		पार्षद	1	एक	बसूबाई बड़ोलिया
		पार्षद	2	दो	फरीद खां मंसूरी
		पार्षद	3	तीन	पूजा भगवान खेरनार
		पार्षद	4	चार	श्री संतोष गौर
		पार्षद	5	पांच	दुर्गाबाई कापड़ी
		पार्षद	6	छः	शकीला बी फैज अली
		पार्षद	7	सात	मजीद भाई
		पार्षद	8	आठ	श्रीमती ममता (राधिका) दिलीप जैमिनी
		पार्षद	9	नौ	श्री वीरेन्द्र राजपूत
		पार्षद	10	दस	श्री संतोष खण्डेलवाल
		पार्षद	11	ग्यारह	श्री सुनील महेश्वरी (सोनू बाबा)
		पार्षद	12	बारह	श्री सुरेश आ. नवलसिंह
		पार्षद	13	तेरह	श्री राजेश पंवार
		पार्षद	14	चौदह	“हाजरा बी, लल्ला”
		पार्षद	15	पन्द्रह	मुन्नीदेवी नरबदा प्रसाद वर्मा

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-171.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, नौरोजाबाद जिला- उमरिया	अध्यक्ष	-	-	सतीलाल
		पार्षद	1	एक	कुशल सिंह परस्ते
		पार्षद	2	दो	राधा सोधिया
		पार्षद	3	तीन	मंजू तिवारी
		पार्षद	4	चार	रामभजन गोंड
		पार्षद	5	पांच	जानकी बाई कोल
		पार्षद	6	छः	राजू प्रसाद यादव
		पार्षद	7	सात	उर्मिला मुरलीधर
		पार्षद	8	आठ	सावित्री
		पार्षद	9	नौ	हेमलता
		पार्षद	10	दस	ओमप्रकाश पटवा
		पार्षद	11	ग्यारह	झाला नरेश
		पार्षद	12	बारह	इसरत जहां/बजू भाई
		पार्षद	13	तेरह	प्रमोद सिंह (शैलू)
		पार्षद	14	चौदह	रश्मि तिवारी
		पार्षद	15	पन्द्रह	परवत सिंह गोड़

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-172.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष/पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, चंदिया जिला- उमरिया	अध्यक्ष	-	-	बिन्दु सिंह
		पार्षद	1	एक	रामस्वरूप कुशवाहा
		पार्षद	2	दो	रेखा बाई
		पार्षद	3	तीन	मोती लाल कोरी
		पार्षद	4	चार	सुनील कुमार गुप्ता
		पार्षद	5	पांच	राजेन्द्र कुमार सोनी
		पार्षद	6	छः	संध्या मिश्रा
		पार्षद	7	सात	दीनदयाल कोल
		पार्षद	8	आठ	शकुन कोल
		पार्षद	9	नौ	प्रमोद साहू
		पार्षद	10	दस	गुड्डी बाई यादव
		पार्षद	11	ग्यारह	अग्रवाल दिनेश कुमार
		पार्षद	12	बारह	ममता कुशवाहा (काछी)
		पार्षद	13	तेरह	सरोज यादव
		पार्षद	14	चौदह	कोसा बाई कोल
		पार्षद	15	पन्द्रह	बेबी शबनम पति मो. मुख्तियार अ. खान

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-173.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, टिमरनी जिला- हरदा	अध्यक्ष	-	-	सुभाष जायसवाल
		पार्षद	1	एक	श्रीमति मीना राजेन्द्र नागरे
		पार्षद	2	दो	श्री रमेश तिवारी
		पार्षद	3	तीन	पंकज तिवारी (मुनऊ)
		पार्षद	4	चार	श्रीमति संध्या ओम मिश्रा
		पार्षद	5	पांच	श्रीमति भारती पत्नि दीपक पटवारे
		पार्षद	6	छः	श्रीमति पिंकी नन्दकिशोर सोलंकी
		पार्षद	7	सात	श्री सुनील गौर
		पार्षद	8	आठ	श्रीमति सुषमा राठौर
		पार्षद	9	नौ	श्री बाल कृष्ण कौशल "गोलू"
		पार्षद	10	दस	श्रीमति जुलेखा युसुफ गौरी
		पार्षद	11	ग्यारह	बृजमोहन प्रधान (छुन्नु)
		पार्षद	12	बारह	श्री रमाकांत पारे (गुड्डू)
		पार्षद	13	तेरह	श्री नरेन्द्र आ. मांगीलाल सितोके
		पार्षद	14	चौदह	श्री गिरीश घुरें
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमती सुरेखा परदेशी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-174.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / प्रार्थकों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्थद	वार्ड क्रमांक केवल		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, खिरकिया जिला- हरदा	अध्यक्ष	-	-	रमेश चंद्र लोमारे
		पार्थद	1	एक	संगीता मनीष राय
		पार्थद	2	दो	प्रफुल्ल वर्मा
		पार्थद	3	तीन	बसना सेजकर
		पार्थद	4	चार	गायत्री कौशल
		पार्थद	5	पांच	भोजराज टेलर
		पार्थद	6	छः	संदीप भदौरिया
		पार्थद	7	सात	रंजना अशोक देवराले
		पार्थद	8	आठ	भागवती बाई राजपूत
		पार्थद	9	नौ	पुष्पा उर्फ पूजा अनिल जैन
		पार्थद	10	दस	रामनिवास पटेल
		पार्थद	11	ग्यारह	निर्मला बाई ओनकर
		पार्थद	12	बारह	प्रीती (अमृता) शर्मा
		पार्थद	13	तेरह	मानसिंह पंवार
		पार्थद	14	चौदह	दिलिप सिंह राजपूत
		पार्थद	15	पन्द्रह	औंकार भाऊ

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-175.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष/पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, गाडरबारा, जिला- नरसिंहपुर.	अध्यक्ष	-	-	श्री राजेन्द्र साहू
		पार्षद	1	एक	श्रीमति संगीता गोलू पटेल
		पार्षद	2	दो	श्री जगदीश सासानी
		पार्षद	3	तीन	श्री विमलसिंह ठाकुर
		पार्षद	4	चार	श्रीमति पूजा तिवारी
		पार्षद	5	पांच	श्रीमति वंदना साहू
		पार्षद	6	छः	श्री लखन पटेल
		पार्षद	7	सात	श्री राजेश शर्मा (गुट्टी महाराज)
		पार्षद	8	आठ	श्रीमति सपना कमलेश सेन
		पार्षद	9	नौ	श्रीमति पुष्पा राय
		पार्षद	10	दस	श्री जमना प्रसाद कुर्मी
		पार्षद	11	ग्यारह	श्री हर्ष पाठक
		पार्षद	12	बारह	श्रीमति बेटीबाई नन्हेलाल जाटव
		पार्षद	13	तेरह	श्री प्रमोद कुमार जैन (भूरे सिंघई)
		पार्षद	14	चौदह	श्री वीरेन्द्र व्यास (वीरू)
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमति श्वेता शुक्ला
		पार्षद	16	सोलह	श्री रीतेश राय
		पार्षद	17	सत्रह	श्री संदीप यादव
		पार्षद	18	अट्ठारह	श्रीमति उमा (शैली) राजपूत
		पार्षद	19	उन्नीस	श्रीमति उमा-अमानसिंह कश्यप
		पार्षद	20	बीस	श्रीमति विमला कोरी
		पार्षद	21	इक्कीस	श्रीमति नूतन राय
		पार्षद	22	बाईस	श्री गोपाल विश्णोई
		पार्षद	23	तेईस	श्री रेवाराम कोरी
		पार्षद	24	चौबीस	श्रीमति रजनी कैलाश छीपा

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-176.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष/पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद् नरसिंहपुर जिला-नरसिंहपुर.	अध्यक्ष	-	-	महंत प्रीतम पुरी गोस्वामी
		पार्षद	1	एक	सावित्री गोविन्द
		पार्षद	2	दो	श्रीमति शुकन्तला चौकसे
		पार्षद	3	तीन	श्रीमति सुनीता भागवानदास वंशकार
		पार्षद	4	चार	अनुराधा अरविंद नामदेव
		पार्षद	5	पांच	सुभाष साहू
		पार्षद	6	छः	अजीत ठाकुर "अज्जू"
		पार्षद	7	सात	शिमला वर्मा
		पार्षद	8	आठ	भगवानदास राय
		पार्षद	9	नौ	भागवती बाई वंशकार
		पार्षद	10	दस	बन्ने खां
		पार्षद	11	ग्यारह	शकुन राय
		पार्षद	12	बारह	सुशील मिश्रा "मुंडे"
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती अंजु यादव
		पार्षद	14	चौदह	सुरेन्द्र कुमार नेमा
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमती स्वीटा राजा ओसवाल
		पार्षद	16	सोलह	गुरुचरण "बालू महाराज"
		पार्षद	17	सत्रह	श्रीमती संगीता (अस्सु नेमा)
		पार्षद	18	अट्ठारह	श्रीमती मृदुला प्रदीप अग्रवाल
		पार्षद	19	उन्नीस	मनोज श्रीवास्तव
		पार्षद	20	बीस	अब्दुल हकीम खान उर्फ बाबी
		पार्षद	21	इक्कीस	चौ. राजेश कुमार साहू
		पार्षद	22	बाईस	श्रीमति ललिता तिवारी
		पार्षद	23	तेईस	रामकांत चौबे
		पार्षद	24	चौबीस	सोनीलाल मेहतर
		पार्षद	25	पच्चीस	धनराज ठाकुर
		पार्षद	26	छब्बीस	श्रीमती रामकुमारी सोनी
		पार्षद	27	सत्ताईस	शकुन इमरत लाल
		पार्षद	28	अट्ठाईस	गोविन्द प्रताप पटैल

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-177.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			पार्षद		
(1)	(2)	(3)	अंकों में (4)	शब्दों में (5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद् करेली जिला-नरसिंहपुर	अध्यक्ष	-	-	श्रीदेवी वनवारी
		पार्षद	1	एक	कढ़ोरीलाल गौड
		पार्षद	2	दो	महेश साहू
		पार्षद	3	तीन	नीरज लूनावत
		पार्षद	4	चार	किरण कुमार ठाकुर लक्ष्मण
		पार्षद	5	पांच	श्रीमति प्रीति मिश्रा बबली
		पार्षद	6	छः	राजेश कुमार यादव राजू
		पार्षद	7	सात	नवीन नेमा
		पार्षद	8	आठ	किरण/मुन्नालाल
		पार्षद	9	नौ	रितु पाण्डे
		पार्षद	10	दस	फिरोल अली
		पार्षद	11	ग्यारह	सुचिता कृष्णकांत (प्रदीप)
		पार्षद	12	बारह	सुशीला सोनी
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमति द्रोपतीबाई-पतिशाम
		पार्षद	14	चौदह	कांति केवल जाट
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमति प्रतिभा सिंह रघुवंशी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-178.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, तेन्दूखेड़ा जिला-नरसिंहपुर	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती कनकलता/महेन्द्र तिजोडी वाले
		पार्षद	1	एक	शिखा राय
		पार्षद	2	दो	अर्चना स्वदेशी
		पार्षद	3	तीन	चंद्रेश विश्वकर्मा
		पार्षद	4	चार	श्रीमति अनीता विश्वकर्मा
		पार्षद	5	पांच	सोमबाई जाटव
		पार्षद	6	छः	सुशीला पाली
		पार्षद	7	सात	अंकित जैन
		पार्षद	8	आठ	श्रीमती सुषमा चौकसे
		पार्षद	9	नौ	रमेश सेन
		पार्षद	10	दस	मनोरमा मिश्रा
		पार्षद	11	ग्यारह	गेंदालाल जाटव
		पार्षद	12	बारह	डालचंद पटैल
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमति सविता
		पार्षद	14	चौदह	बाबूलाल ठाकुर
		पार्षद	15	पन्द्रह	पूरन काछी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-179.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, गोटेगांव जिला-नरसिंहपुर	अध्यक्ष	-	-	श्रीमति संध्या राजकुमार जैन
		पार्षद	1	एक	श्रीमति वर्षा राय
		पार्षद	2	दो	श्रीमति विनीता पटैल
		पार्षद	3	तीन	श्रीमति किरणलता जैन
		पार्षद	4	चार	श्रीमति नमिता पटैल
		पार्षद	5	पांच	डब्लू पार्षद
		पार्षद	6	छः	श्रीमति श्यामादेवी कस्तवार
		पार्षद	7	सात	जितेन्द्र कुमार चांदोरिया
		पार्षद	8	आठ	दयाशंकर चौरसिया (ठल्लू)
		पार्षद	9	नौ	डॉ. जितेन्द्र चौबे (जितू भैया)
		पार्षद	10	दस	श्रीमति लक्ष्मीबाला कतिया
		पार्षद	11	ग्यारह	दीपक सोनी "पप्पू"
		पार्षद	12	बारह	"लक्ष्मीप्रसाद साहू"
		पार्षद	13	तेरह	दुलीचंद्र विश्वकर्मा "दुल्ली भैया"
		पार्षद	14	चौदह	पुष्पा बाई बिलवार
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमति कल्पना सोनी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-180.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, आलोट जिला-रतलाम	अध्यक्ष	-	-	मुनीम रामप्रसाद राठौर
		पार्षद	1	एक	श्रीमती सुनीता-नंदनराज जैन
		पार्षद	2	दो	शाहिदा बी अनवर हुसैन
		पार्षद	3	तीन	हमीदा बी-बाबू शाह
		पार्षद	4	चार	अनिल बसंतीलाल भरावा
		पार्षद	5	पांच	विपिन दवे
		पार्षद	6	छः	अशोक रतनलाल खींची
		पार्षद	7	सात	श्रवणसिंह सोलंकी
		पार्षद	8	आठ	सलमा बी सुलेमान हुसैन
		पार्षद	9	नौ	हसीना बी बुंदु खां
		पार्षद	10	दस	अकबर अली कापडिया
		पार्षद	11	ग्यारह	गोपाल सोलंकी
		पार्षद	12	बारह	रेशमा बी-रजाक खां
		पार्षद	13	तेरह	राधेश्याम मीणा (भाया)
		पार्षद	14	चौदह	नन्दु माली
		पार्षद	15	पन्द्रह	कृष्णाबाई-रमेशचंद मालवीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-181.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, बड़ावदा जिला-रतलाम.	अध्यक्ष	-	-	श्री शांतिलाल पिता पन्नालाल कटारिया
		पार्षद	1	एक	श्रीमती पिस्ताबाई पति किशनलाल सुतार
		पार्षद	2	दो	श्रीमती मांगीबाई पति गोरधनलाल मालवीय
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती संगीता कुंवर पति विरेन्द्र सिंह सिसोदिया
		पार्षद	4	चार	श्री इंदरमल टेलर पिता रामलाल
		पार्षद	5	पांच	श्री सलीमशाह पिता रजाकशाह
		पार्षद	6	छः	श्री रमेश पिता छप्पा परमार
		पार्षद	7	सात	श्रीमती जमनाबाई पति मोहनलाल पाटीदार
		पार्षद	8	आठ	श्री अनिल पिता सुरेशचन्द्र अवस्थी
		पार्षद	9	नौ	श्री मोहनलाल पिता नरभेराम खोकर
		पार्षद	10	दस	श्री मोहनसिंह पिता बगदीराम मालीवाड़
		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती राजु पति मोहनलाल वर्मा
		पार्षद	12	बारह	श्री रशीदखान पिता इकबालखान पठान
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती तारा पति रामकरण मालवीय
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती शांताबाई पति नंदराम राठौड़
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमती सुनिता पति प्रदीप मेहता

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-182.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, नामली जिला-रतलाम	अध्यक्ष	-	-	भरावा सज्जन बाई दशरथ लाल
		पार्षद	1	एक	श्रीनाथ योगी
		पार्षद	2	दो	श्रीमती विष्णुबाई पति श्री भरतलाल
		पार्षद	3	तीन	“ श्रीमती जमनाबाई भगवतीलाल मेहलोत ”
		पार्षद	4	चार	दिलीपसीह सोलंकी (राजपूत)
		पार्षद	5	पांच	यशवन्त कुमावत
		पार्षद	6	छः	दिनेश जाट
		पार्षद	7	सात	भंवरीबाई पति स्व. श्री तुलसीराम
		पार्षद	8	आठ	श्रीमती रेखा मुकेश जाट
		पार्षद	9	नौ	मोहनलाल देवाजी बाघेला
		पार्षद	10	दस	श्रीमती अयोध्याबाई राठौड़
		पार्षद	11	ग्यारह	चौहान संजय चौहान
		पार्षद	12	बारह	श्रीमती मंगला राठौड़
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमति माला राठौर
		पार्षद	14	चौदह	तुफान सिंह सौनगरा
		पार्षद	15	पन्द्रह	रमेशचन्द्र डिण्डोर

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-183.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, ताल जिला-रतलाम	अध्यक्ष	-	-	ऊंकारलाल पाटीदार
		पार्षद	1	एक	अनिता बंकट राठौर
		पार्षद	2	दो	श्रीमती शशि सिद्धार्थ जैन
		पार्षद	3	तीन	राजु नानालाल माहेश्वरी
		पार्षद	4	चार	दिलीप जीनगर
		पार्षद	5	पांच	आशिष परमार
		पार्षद	6	छः	जितेन्द्र कुंवर नरेन्द्रसिंह
		पार्षद	7	सात	कचनबाई
		पार्षद	8	आठ	मुबारीक अली उर्फ खल्लु लाला
		पार्षद	9	नौ	श्रीमति भूरी बी सत्तार खां मेव
		पार्षद	10	दस	नवीन मेहता
		पार्षद	11	ग्यारह	रऊफ खां
		पार्षद	12	बारह	गोवर्धनलाल पोरवाल
		पार्षद	13	तेरह	रशीदा राजु मंसुरी
		पार्षद	14	चौदह	शोभाराम खारोल
पार्षद	15	पन्द्रह	मुनव्वर बी भुरू खां		

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-184.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, पिपलौदा जिला-रतलाम	अध्यक्ष	-	-	उपमा श्याम बिहारी पटेल
		पार्षद	1	एक	लताबाई-रमेश नकवाल
		पार्षद	2	दो	अमृतराम-नन्दु चन्द्रवंशी
		पार्षद	3	तीन	सुरेन्द्रसिंह (सोनु)
		पार्षद	4	चार	अन्नपूर्णा-घनश्याम देराश्री
		पार्षद	5	पांच	इन्द्रा-बालमुकन्द जी (नेताजी)
		पार्षद	6	छः	संध्या देवी-किशोर
		पार्षद	7	सात	गीताबाई-नरसिंह धनगर
		पार्षद	8	आठ	संध्या-धीरज टेलर
		पार्षद	9	नौ	मदनलाल मोग्या
		पार्षद	10	दस	बालाराम-दयाराम
		पार्षद	11	ग्यारह	धन्ना भगत
		पार्षद	12	बारह	सुलोचना भाटी
		पार्षद	13	तेरह	प्रेमलता-मांगीलाल
		पार्षद	14	चौदह	चम्पालाल पिता अम्बालाल नागर
		पार्षद	15	पन्द्रह	रमेशचन्द्र पिता अम्बालाल परमार

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010.

क्र. एफ-65-08-09-तीन-185.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, जावरा जिला-रतलाम.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती निर्मला हाडा पति श्री प्रहलादसिंह हाडा
		पार्षद	1	एक	श्री घनश्याम पिता कालुराम
		पार्षद	2	दो	श्री जीवन राव पिता हरीराव
		पार्षद	3	तीन	श्री बब्बन शाह पिता कुर्बान शाह
		पार्षद	4	चार	सईदा बी पति मेहमुद हुसैन
		पार्षद	5	पांच	श्री याकूब पिता एहमद
		पार्षद	6	छः	श्री कुतबुद्दीन पिता सेफुद्दीन
		पार्षद	7	सात	श्रीमती रूखसाना पति मो. मुस्तकीम
		पार्षद	8	आठ	श्रीमती सुनीता पति रमेशचन्द्र
		पार्षद	9	नौ	श्रीमती कोकीला पति जगदीश
		पार्षद	10	दस	श्रीमती धापूबाई पति राधेश्यामजी धाकड़
		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती सरोज सांकला पति बाबूलाल
		पार्षद	12	बारह	श्रीमती मंजुलादेवी पति अजीत चत्तर
		पार्षद	13	तेरह	श्री पवन पिता रामचंद्र
		पार्षद	14	चौदह	श्री ओमप्रकाश पिता रामलालजी
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्री सुशीलकुमार पिता बाबूलाल
		पार्षद	16	सौलह	श्री इब्राहीम पिता अ. रहमान
		पार्षद	17	सत्रह	श्री गोपाल पिता मोतिलाल
		पार्षद	18	अठारह	श्री अनिल कुमार पिता मोतिलाल
		पार्षद	19	उन्नीस	श्री लक्ष्मीनारायण पिता दयाराम
		पार्षद	20	बीस	श्रीमती बसंतीबाई मोहन पटेल
		पार्षद	21	इक्कीस	श्रीमती रशीदा बी पति ए. हुसैन
		पार्षद	22	बाईस	श्रीमती भूरी पति मुबारिक
		पार्षद	23	तेईस	श्रीमती सलमा बी पति फय्याज खां
		पार्षद	24	चौबीस	श्री गफूर खां पिता बाबु खां
		पार्षद	25	पच्चीस	श्रीमती मंजु कुमारी पति कमलकुमार
		पार्षद	26	छब्बीस	श्री जगदीश पिता प्रेमचंद चतवाणी
		पार्षद	27	सत्ताईस	श्रीमती कमला पति गुरुमुखदास
		पार्षद	28	अट्ठाईस	श्रीमती कविता पति अरविन्दसिंह चौहान
		पार्षद	29	उन्तीस	श्रीमती सुमन पति दीनदयाल मेहता
		पार्षद	30	तीस	श्री प्रदीप पिता रमेशचंद्र

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.